



अधिसूचना



29 फरवरी, 2016

मन की बात



छात्रों को संबोधित माननीय प्रधानमंत्री का संदेश: मेरे प्यारे देशवासियो, मैंने पहले ही कहा था कि मन में जो आता है, मन करता है, आपसे खुल करके बांटू। आने वाले दिनों में दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएँ होंगी। पिछली बार 'मन की बात' में मैंने परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों से कुछ बातें की थीं। इस बार मेरी इच्छा है कि जो विद्यार्थियों ने सफलता पाई है और तनावमुक्त परीक्षा के दिन कैसे गुजारे हैं, परिवार में क्या माहौल बना, गुरुजनों ने, शिक्षकों ने क्या *role* किया, स्वयं ने क्या प्रयास किये, अपनों से सीनियर ने उनको क्या बताया और क्या किया? आपके अच्छे अनुभव होंगे। इस बार हम ऐसा एक काम कर सकते हैं कि आप अपने अनुभव मुझे 'Narendra Modi App' पर भेज दीजिये। और मैं

मीडिया से भी प्रार्थना करूँगा, उसमें जो अच्छी बातें हों, वे आने वाले फ़रवरी महीने में, मार्च महीने में अपने मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें, ताकि देशभर के *students* उसको पढ़ेंगे, टी.वी. पर देखेंगे और उनको भी चिंतामुक्त *exam* कैसे हो, तनावमुक्त *exam* कैसे हो, हँसते खेलते-*exam* कैसे दिए जाएँ, इसकी जड़ीबूटी हाथ लग जाएगी और मुझे विश्वास है कि मीडिया के मित्र इस काम में ज़रूर मदद करेंगे। हाँ, लेकिन तब करेंगे, जब आप सब चीज़ें भेजेंगे। भेजेंगे न? पक्का भेजिए।

31 जनवरी 2016 को प्रसारित **मन की बात** के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों को आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आत्म विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ बैठने के लिए कहा है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षाओं के बारे में अपने विचार **नरेन्द्र मोदी मोबाइल 'एप'** पर साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे **1800 209 0920** पर 'मिस्ट कॉल' देकर डाउनलोड किया जा सकता है।

- विद्यार्थी परीक्षा देने के अपने अनुभव को भेज सकते हैं
- शिक्षक और अभिभावक भी अपने अनुभव व्यक्त कर सकते हैं
- प्रधानमंत्री जी भी स्वयं अपने विचार व्यक्त करेंगे।

सभी विद्यालय प्रमुखों से अपने विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों को 'एप' को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने और परीक्षा देने के दौरान तनाव से किस प्रकार मुक्त हुए संबंधी अनुभवों को साझा करने हेतु निवेदन किया जाता है।

सुगंध शर्मा

सुगंध शर्मा
अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड